



योजना के बारे में



राजस्थान सरकार ने गांव-गांव तक लोगों को ब्रांडेड उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए 31, अक्टूबर 2015 को जयपुर ज़िले में भम्भौरी गांव से अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की। योजना में उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया गया है।

गावों में अब उपलब्ध हैं ब्रांडेड उत्पाद

शहरों में मिलने वाले ब्रांडेड उत्पाद अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से अब गावों में भी उपलब्ध हैं। 45 तरह के लगभग 350 से अधिक गुणवत्तायुक्त मल्टीब्रांड उत्पाद इन अन्नपूर्णा भंडारों पर उचित कीमत पर मिलते हैं।

रूरल मॉल का सपना हुआ साकार

गावों में भी ब्रांडेड उत्पाद उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को ज़रूरत का हर घरेलू सामान घर के नज़दीक ही उपलब्ध है। इन अन्नपूर्णा भंडारों से रूरल मॉल का सपना साकार हुआ है।

डीलर के लिए अतिरिक्त आय का जरिया

पहले राशन डीलर केवल चीनी, गेहूँ व कैरोसीन ही बेच रहे थे जिससे उनकी आय कम होती थी। इन्हें आजीविका के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब डीलर ज्यादा चीजें बेचते हैं, ज्यादा दिन तक दुकान खोलते हैं। इससे उन्हें गांव में ही रोजगार का साधन उपलब्ध हो गया, उनकी आय भी बढ़ गई और सामाजिक स्तबा भी बढ़ गया।

बोल बदलाव के



छाया नाविक

भीलवाड़ा

अन्नपूर्णा भण्डार में अच्छी किस्म की ब्राण्डेड वस्तुएं एमआरपी से कम कीमत पर उपलब्ध होने से लोगों को सस्ती और अच्छी वस्तुएं मिली है साथ ही मुझे रोजगार भी मिला है।



रमेश गोयल

टोंक

अन्नपूर्णा भण्डार में दैनिक उपभोग की वस्तुएं एमआरपी से कम दरों पर मिलने के कारण खरीददारों में योजना के प्रति रुचि और ज्यादा बढ़ गई है।